



वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम: नीति आयोग

प्रलिस के लयि:

वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम, अटल इनोवेशन मशिन, आठवीं अनुसूची

मेन्स के लयि:

वीआईपी और भाषा की बाधाओं को दूर करने तथा इनोवेटरस को सशक्त बनाने में इसका महत्त्व । भारत में एक नवोन्मेषी पारस्थितिकी तंत्र बनाने में सरकारी प्रयास ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [अटल इनोवेशन मशिन \(AIM\)](#), [नीति आयोग](#) ने अपनी तरह का पहला वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (VIP) लॉन्च किया है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की [22 अनुसूचित भाषाओं](#) में नवाचार इको-सिस्टम तक पहुँच में सक्षम बनाएगा ।

प्रमुख बडि

■ परिचय:

- VIP नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में **भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल** है, यह रचनात्मक अभवियक्तियों और लेन-देन की भाषाओं को व्यवस्थित रूप से अलग कर देगा ।
- VIP के लिये आवश्यक क्षमता का निर्माण करने हेतु AIM ने **22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में एक वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (VTF) की पहचान** की है और इसमें प्रशिक्षण देगा ।
- प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शक्तिषक, वषिय वशिषज्ज, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs) के नेतृत्व शामिल हैं ।

■ महत्त्व

- यह भारतीय नवाचार और उद्यमिता पारस्थितिकी तंत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा, जो युवा एवं महत्त्वाकांक्षी लोगों के संज्ञानात्मक और डिजाइन दृष्टिकोण को मजबूत करेगा ।
- यह डिजाइन वशिषज्जों और नवाचार करने वाले लोगों के एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की सहायता करेगा ।
- यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकर्त्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा ।
- यह उन स्थानीय नवप्रवर्तनकर्त्ताओं के लिये समान अवसर पैदा करेगा, जो भारतीय आबादी के 90% हसिसे का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
 - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 10.4% भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, जसिमें से अधिकांश लोग इसका प्रयोग अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में करते हैं ।
 - केवल 0.02% भारतीय अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते थे ।
- किसी की भाषा और संस्कृति में सीखने हेतु पहुँच प्रदान करके AIM स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिये तत्पर है ।

■ नवाचार/उद्यमिता से संबंधित अन्य पहलें:

- [भारत नवाचार सूचकांक](#)
- [इम्प्रटि](#) (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना)
- [उच्चतर आवधिकार योजना \(यूएवाई\)](#)
- [स्टार्टअप इंडिया पहल](#)
- [मशिन इनोवेशन 2.0](#)
- [एआईएम-पराइम](#)
- [AIM-iCREST: नीति आयोग](#)
- [अटल कमयुनिटी इनोवेशन सेंटर](#)
- [अटल टकिरगि लैब्स](#)

अटल नवाचार मशिन (AIM)

- अटल नवाचार मशिन के बारे में:
 - AIM देश में नवाचार और उद्यमता की संस्कृतिको बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना नीतिआयोग ने की है।
- उद्देश्य:
 - अर्थव्यवस्था के वभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नए कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करना, वभिन्न हतिधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना तथा देश के नवाचार पारस्थितिकी तंत्र की नगिरानी हेतु एक छत्र संरचना का नरिमाण करना।
- अटल नवाचार मशिन के तहत की गई पहल:



//

- प्रमुख सफलता:
 - AIM की पहलों के तहत वर्ष 2015 में [वैश्विक नवाचार सूचकांक](#) में भारत 81वें स्थान पर और वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर रहा है।

आठवीं अनुसूची

- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में [अनुच्छेद 343 से 351](#) तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
 - हालाँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई नश्चित मानदंड नरिधारित नहीं है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में नमिनलखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
 - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हर्दि, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सध्धि, तमलि, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथली और डोगरी।
- इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
- वर्ष 1967 में सध्धि भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधनियिम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधनियिम द्वारा कोंकणी, मणपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
- वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधनियिम जो कविवर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

स्रोत: पीआईबी

